

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक
में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ
पन्ने हैं यह मापी पुस्तक श्री. रविशंकर उपाध्याय
सहायक अभियन्ता प्राचीन कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल 2/5/61 को निर्गत
किया जाता है।

12/6/61
कार्यपालक अभियन्ता
प्राचीन कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, मयूरवती
2/5/61

Sch. XLV—Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2568

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work— 1

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	C.H.H. - F.D.R.				
Name of work - Material of road from					
Medhukhuk te Bah tal.					
Scheme - M.A. 2054					
Agency - Debarmentel.					
Authority - R.F. Rwd, Medhukhuk					
Date of survey -					

work done

1) Bm. Bank cuts fully finished -

0 to 35 m -	1 x 2.40 x $\frac{2.40+3.70}{2}$ x 0.30 =	5.72 m ³
	1 x 5.50 x 3.75 x $\frac{3.75+4.5}{2}$ =	7.73 "
	1 x 13.00 x 3.75 x $\frac{3.75+4.55}{2}$ =	35.68 "
	1 x 4.50 x 3.25 x $\frac{3.25+4.25}{2}$ =	5.91 "
Step -	1 x 29.00 x $\frac{0.25+0.75}{2}$ x 0.60 =	7.83 "
30 to 40 m -	1 x 4.50 x 1.15 x 0.25 =	1.28 "
	1 x 12.00 x 3.00 x 0.35 =	12.60 "
	1 x 5.50 x 1.50 x 0.30 =	2.48 "
	1 x 5.45 x 3.00 x 0.35 =	5.72 "
	1 x 2.25 x 1.75 x 0.30 =	1.18 "
	1 x 2.00 x 0.75 x 0.20 =	0.30 "
	1 x 5.25 x 3.00 x 0.30 =	4.73 "

Continuation
 of 91.12 m³

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Abstract of Rent</u>					
2) Per. Brick latz in ditches —					
City side 7 m 10 ft (2) Street (1)					
154.08 m ² @ Rs 2000 = 30816					
Rs 308924 = 00					
Add 12% GST — Rs 37071 = 00					
Less L. Pass 2% — Rs 3089 = 00					
Add. S. fee - B. Latz - 154.08 m ²					
Rs 103200 x 10% = 10320 = 00					
Rs 1112/21 Rs 364985 = 00					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Rs 1112/21 Rs 1112/21 </div>					
AE					